



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 24—जनवरी 30, 2009 (माघ 4, 1930)

No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 24—JANUARY 30, 2009 (MAGHA 24, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 2009

सं. आरएस/43(ix)/2005/1-कार्मिक--इस सचिवालय की दिनांक 16 जनवरी, 2006 की अधिसूचना सं. आरएस/43(ix)/2005/1-कार्मिक के क्रम में, राज्य सभा के सभापति ने श्री संजय सिंह, आईपीएस (एजीएमयू : 1990) की इस सचिवालय में निदेशक (सुरक्षा) के रूप में प्रतिनियुक्ति की अवधि को 16 जनवरी, 2009 से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी है।

सी. बी. राय, निदेशक

सं. आरएस/3/1/1/2008/2(2009)-कार्मिक--श्री अनिल कुमार सैनी, जिन्हें पहले दिनांक 21 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना सं. आरएस/3/1/1/2008/19-कार्मिक द्वारा तदर्थ आधार पर विधायी/समिति/न्यायाचार/अधिशासी अधिकारी के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को अब 1 जनवरी, 2009 के पूर्वाह्न से, आगामी आदेशों तक उक्त ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति रिट याचिका सं. 3025/88 के अंतिम निपटान के समय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अधधीन होगी।

सी. बी. राय, निदेशक

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 05 जनवरी 2009

सं. ए-190011/01/2009-प्रशा. 1--राष्ट्रपति, श्री अजीत कुमार सेठ, भा.प्र.से. उ. प्र. : 74 को 01 जनवरी, 2009 के पूर्वाह्न से मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव (समन्वय एवं लोक शिकायत) के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. कृष्णमूर्ति, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 05 जनवरी 2009

सं. ए-20/जी-बी/157--निगमित मामले मंत्रालय में नियमित अनुभाग अधिकारी, श्री संदीप जैन, जिनकी सेवाएं निर्वाचन आयोग की

30.11.2006 से 1 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 29.11.2007 तक प्रतिनियुक्ति के आधार पर, विशेष कार्य अधिकारी (विधि) रूप में सौंपी गई थी तथा जिसकी अवधि को अनुवर्ती रूप से 29.11.2008 तक बढ़ाया गया था, को एतद्वारा 05.01.2009 पूर्वाह्न से निर्वाचन आयोग से कार्यमुक्त किया जाता है तथा यह निदेश दिया जाता है कि वे निगमित मामले मंत्रालय में अपना कार्यभार संभाल लें।

सीता राम, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 2008

सं. ए. 12025/3/2008-वि.सा.प्र(प्र.)--राष्ट्रपति, विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में अधीक्षक (मुद्रण) श्रीमती सरस्वती विश्वनाथन को विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में तारीख 17 नवम्बर, 2008 (पूर्वाह्न) से तीन मास की अवधि के लिए और अगले आदेश तक 15,600--39,100/- रुपये के वेतन बैंड + 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन में तदर्थ आधार पर प्रकाशन-सह-विक्रय प्रबंधक के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से श्रीमती सरस्वती विश्वनाथन को प्रकाशन-सह-विक्रय प्रबंधक के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए किसी प्रकार का कोई दावा करने का अधिकार नहीं मिलेगा और न ही उनके द्वारा तदर्थ आधार पर की गई सेवा को उस ग्रेड में ज्येष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ गणना में लिया जाएगा।

एम. आर. बीर, उप सचिव

दिनांक 30 दिसम्बर 2008

सं. ए. 37012/3/2008-वि.सा.प्र(प्र.)--राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के विधि साहित्य प्रकाशन में संपादक, श्री अनूप कुमार वाष्ण्य को विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के उक्त प्रकाशन में तारीख 30 दिसम्बर, 2008 (पूर्वाह्न) से तीन मास की अवधि के लिए और अगले आदेश तक 37,400--67,000/- रुपये के वेतन बैंड + 8,700/- रुपये के ग्रेड वेतन में तदर्थ आधार पर प्रधान संपादक के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से श्री अनूप कुमार वाष्ण्य को प्रधान संपादक के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए किसी प्रकार का कोई दावा करने का अधिकार नहीं मिलेगा और न ही उनके द्वारा तदर्थ आधार पर की गई सेवा को उस ग्रेड में ज्येष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ गणना में लिया जाएगा।

एम. आर. बीर, उप सचिव

सं. ए. 37012/3/2008-वि.सा.प्र(प्र.)--राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के विधि साहित्य प्रकाशन में सहायक संपादक, श्री जुगल किशोर को विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के उक्त प्रकाशन में तारीख 30 दिसम्बर, 2008 (पूर्वाह्न) से तीन मास की

अवधि के लिए और अगले आदेश तक 15,600--39,100/- रुपये के वेतन बैंड + 7,600/- रुपये के ग्रेड वेतन में तदर्थ आधार पर संपादक के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से श्री जुगल किशोर को संपादक के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए किसी प्रकार का कोई दावा करने का अधिकार नहीं मिलेगा और न ही उनके द्वारा तदर्थ आधार पर की गई सेवा को उस ग्रेड में ज्येष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के प्रयोजनार्थ गणना में लिया जाएगा।

एम. आर. बीर, उप सचिव

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 2009

सं. ए. 32012/2/2008-प्रशा.1(वि.क्र.)--सक्षम प्राधिकारी, इस विभाग के कोलकाता स्थित शाखा सचिवालय में सहायक, (विधि) श्री एस. के. डे. को दिनांक 23 दिसंबर, 2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक पे बैंड, पी.बी.-2 में 9,300--34,800/- रु. के वेतनमान में, उक्त शाखा सचिवालय, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में अधीक्षक (विधि) (साधारण केन्द्रीय सेवा, ग्रुप 'ख' राजपत्रित पद) के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. रवीन्द्रन, अवर सचिव

न्याय विभाग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 26 दिसम्बर 2008

सं. के.13017/2/2008-यू.एस.11--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (i) श्री अरूण चन्द्र उपाध्याय और (ii) श्री चित्तरंजन शर्मा को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. दुइक्ले, उप सचिव

सं. के.13022/1/2008-यू.एस.1--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (i) श्री सुरेन्द्र मोहन कुरियाकोस, अधिवक्ता, (ii) श्री परम्पिल्लिल रामकृष्णन् नायर रामचन्द्रमेनोन, अधिवक्ता, (iii) श्री चन्द्र विल्ल कोयानअलिपिल्ल अब्दुल रेहिम, अधिवक्ता और (iv) श्री चुडलयिल तेवन रविकुमार, अधिवक्ता को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए केरल उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. दुइक्ले, उप सचिव

सं. के.13020/3/2008-यू.एस.11--राष्ट्रपति, जम्मू एवं कश्मीर के संविधान की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्री बारिन घोष को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. टुइक्ले, उप सचिव

दिनांक 29 दिसम्बर 2008

सं. के.13014/4/2004-यू.एस.1--न्यायविद् श्री आशुतोष अरविंद कुंभकोणी ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) के परन्तुक (क) के अनुसरण में दिनांक 7 नवम्बर, 2008 के अपराह्न से बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से त्यागपत्र दे दिया है।

एस. टुइक्ले, उप सचिव

सं. के.13021/3/2004-यू.एस.1--न्यायविद् श्री रविंद्र बसवराज नाइक ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) के परन्तुक (क) के अनुसरण में दिनांक 8 सितम्बर, 2008 के अपराह्न से कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से त्यागपत्र दे दिया है।

एस. टुइक्ले, उप सचिव

दिनांक 30 दिसम्बर 2008

सं. के.13014/5/2008-यू.एस.1--न्यायविद् श्री संतोष चंपालाल बोरा ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) के परन्तुक (क) के अनुसरण में, दिनांक 18 नवम्बर, 2008 के अपराह्न से बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से त्यागपत्र दे दिया है।

एस. टुइक्ले, उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 2009

सं. 20/जी/3020-प्रशा.1--राष्ट्रपति, श्री लोकेश दत्त झा, भा.प्र.से. (जम्मू-कश्मीर : 86), को गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में 37,400--67,000/- रु. (पी.बी.-4) के पे-बैंड और 10,000/- रु. के ग्रेड-पे में दिनांक 1 जनवरी, 2009 (पूर्वाह्न) से अगले पांच वर्षों के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

सं. 14013/04/2008-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के कर्नाटक राज्य संवर्ग के

निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	बैच	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री सी. एस. शिरौल	1994	31.03.2007
2.	श्री एस. दयाशंकर	1997	31.03.2007
3.	श्री एन. श्रीरमन	1997	31.03.2007
4.	श्री के. विश्वनाथ रेड्डी	1997	31.03.2007
5.	श्री एन. एस. चन्नप्पा गौड़ा	1999	31.03.2007
6.	श्री के. रमन्ना नाईक	1999	31.03.2007
7.	डॉ. वी. चन्द्रशेखर	1999	31.03.2007
8.	श्री अनवर पाशा	1999	31.03.2007

हरजोत कौर, निदेशक (सेवाएँ)

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

सं. 14015/13/2008-अ.भा.से.(1)-ख--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित, भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश की राज्य सिविल सेवा के एक सदस्य श्री अशोक देशवाल को भारतीय प्रशासनिक सेवा में वर्ष 2007 की रिक्ति पर परिवीक्षा पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत मध्य प्रदेश संवर्ग में आबंटित करते हैं।

2. उपर्युक्त अधिकारी की नियुक्ति मध्य प्रदेश भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघ द्वारा माननीय कैंट, जबलपुर बैंक के समक्ष दायर ओ.ए. संख्या 375/2008 में अंतिम निर्णय के अधधीन है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

दिनांक 7 जनवरी 2009

सं. 14015/14/2008-अ.भा.से.-(1)-क--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 7 के उप-विनियम (1) में विहित प्रावधानों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग ने, भारतीय प्रशासनिक सेवा, महाराष्ट्र संवर्ग में वर्ष 2008 के दौरान मौजूदा 1 (एक) रिक्ति को भरने के क्रम में चयन समिति द्वारा दिनांक 10.10.2008 को आयोजित अपनी बैठक में तैयार की गई महाराष्ट्र राज्य के गैर-राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों के नाम वाली प्रवर सूची-2008 को दिनांक 17.12.2008 को अनुमोदित कर दिया है :--

चयन सूची 2008

अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
श्री सी. बी. ओक	15.09.1957

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/14/2008-अ.भा.से.-(I)-ख--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1997 के विनियम 8 के उप-विनियम (1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र की गैर-राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्य को भारतीय प्रशासनिक सेवा में वर्ष 2008 की रिक्तियों पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश होने तक परिवीक्षा पर नियुक्त करती हैं और उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत महाराष्ट्र संवर्ग आवंटित करती हैं:--

क्रम	अधिकारी का नाम
सं.	
1.	श्री सी. वी. ओक

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 जनवरी 2009

सं. 20/जी/956-प्रशा. I--राष्ट्रपति, श्री बुद्ध प्रकाश को उनके द्वारा वर्तमान में धीरत निदेशक के पद का स्वस्थाने उन्नयन करके कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में दिनांक 30 अक्टूबर 2008 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक वेतन बैंड 4 (पीबी-4) 37,400/- + 10,000/- (ग्रेड-वेतन) में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

हरीश चन्द्र, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 दिसम्बर 2008

सं. 19/पी.बी.-I/2008--राष्ट्रपति, मंत्रालय के का.जा.सं.क्यू/सीएडी/584/04/2008 दिनांक 3 जून, 2008 के तहत भा.वि.से. (ख) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड IV तथा भा.वि.से. (ख) के साइफर संवर्ग के ग्रेड-II के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के आगे दर्शाई गई तिथि से भा.वि.से. (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-II और III में स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि	पदोन्नति की तारीख
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	एफ. राजशेखर	30.09.1959	01.12.2008
2.	शशिकांत मेशराम	22.01.1966	01.12.2008
3.	राजबीर	06.01.1957	01.12.2008

2. उपर्युक्त अधिकारियों ने अपने नामों के आगे निर्दिष्ट तिथियों से अनुभाग अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

भास्कर भट्ट, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-I&III)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 दिसम्बर 2008

सं. ए. 19015/8/2008-डीआरटी--केन्द्र सरकार, श्री के. शम्भु प्रसाद वरिष्ठ प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा को प्रतिनियुक्ति आधार पर,

10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में, दिनांक 24.11.2008 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण पुणे में सहायक पंजीयक के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, उप सचिव

सं. ए. 19015/9/2008-डीआरटी--केन्द्र सरकार, श्री एम. पी. परमार, अनुभाग अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर को प्रतिनियुक्ति आधार पर, 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में, दिनांक 15.10.2008 (पूर्वाह्न) से दिनांक 11.9.2010 तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण-II अहमदाबाद में सहायक पंजीयक के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, उप सचिव

(विनिवेश विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 5 जनवरी 2009

शुद्धि पत्र

सं. 9/6/2006-प्रशासन--दिनांक 31 अक्टूबर, 2008 की समसंख्यक अधिसूचना (प्रतिलिपि संलग्न) में आंशिक संशोधन करते हुए यह उल्लेख किया जाता है कि वित्त मंत्रालय, विनिवेश विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव श्री पी. जे. थॉमस, 31 अक्टूबर, 2008 के पूर्वाह्न से वास्तव में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर भारत सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हो गए थे। तदनुसार, उक्त अधिसूचना की पंक्ति संख्या 4 को मौलिक नियमावली के नियम 56 के उप-खण्ड (जे) से (एम) या नियम 48 या नियम 48-ए, जैसा भी मामला हो, के अधीन "31 अक्टूबर, 2008 के अपराह्न" के स्थान पर "31 अक्टूबर, 2008 के पूर्वाह्न" के रूप में पढ़ा जाए।

नरेन्द्र सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 अक्टूबर 2008

सं. 9/6/2006-प्रशासन--वित्त मंत्रालय, विनिवेश विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव श्री पी. जे. थॉमस, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने पर 31 अक्टूबर, 2008 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो गए हैं

वी. पी. गुप्ता, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

सं. 17/2008(फा. सं. 6/1608/86/एचआरडी-1/108) --अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप, इस कार्यालय में कार्यरत श्री के.बी. राय, संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार (भा.व्या.से.) 31.12.2008 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त होंगे।

आर. एस. बिष्ट, उप महानिदेशक (विदेश व्यापार)

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 नवम्बर 2008

सं. ए-45011/02/2005-स्था.-I--कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 अगस्त, 2008 के का. ज्ञा. सं. 5/25/2004-सीएस-1 (एस) के तहत श्री अरनायब एच. का नाम वर्ष 2003 के लिए अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड की चयन सूची (वरिष्ठता कोट) में सम्मिलित हो जाने के फलस्वरूप राष्ट्रपति औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में तदर्थ अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यरत और वर्तमान में राजस्व विभाग में कनिष्ठ विश्लेषक (तस्कर रोधी) (6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में) के रूप में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के सीएसएस संवर्ग के नियमित सहायक श्री अरनायब एच. (चयन सूची वर्ष 1990, एससीएसएल सं. 173) को दिनांक 12 अगस्त, 2008 पूर्वाह्न से एफआर-22 के तहत एनबीआर (नेक्स्ट बिलो रूल) के अन्तर्गत प्रोफार्मा पदोन्नति आधार पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

2. सीएसएस के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में उपर्युक्त नियुक्ति श्री कैलाश चन्द्र द्वारा भारतीय संघ के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका (सी) सं. 13245-60/2005 तथा श्री सौरांशु सिन्हा द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष भारतीय संघ के विरुद्ध दायर ओए सं. 1083/2007 तथा एमए सं. 1171/2007 के फैसले के अध्यक्षीन होगी। उपरोक्त अधिकारी को प्रदान किये जाने वाले गैर-क्रियाशील वेतनमान आदि जैसे वित्तीय लाभ उपरोक्त दो न्यायालय मामलों के फैसले के अध्यक्षीन होंगे।

पी. भारद्वाज, अवर सचिव

दिनांक 28 नवम्बर 2008

सं. ए-19012/862/91-स्थापना-I--वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के सीएसएस संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारी तथा तदर्थ आधार पर अवर सचिव (सीएसएस का ग्रेड-I) के रूप में कार्यरत श्री जे. के. सक्सेना अधिवर्षिता की आयु हो जाने पर 30 नवम्बर, 2008 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

पी. भारद्वाज, अवर सचिव

दिनांक 31 दिसम्बर 2008

सं. ए-19012/977/1995-स्थापना-I--वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के सीएसएस कैडर में निजी सचिव, श्री आर. सी. आनंद (चयन सूची 1994) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

पी. भारद्वाज, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसम्बर 2008

सं. 2(7)/2007-स्थापना(.)--यूपीएससी द्वारा सिफारिश किए जाने पर राष्ट्रपति, संयुक्त औद्योगिक सलाहकार, श्री दीपेंद्र कशिवा, जो फिलहाल इस्पात मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अपर औद्योगिक सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं, को पदोन्नति पर नियमित आधार पर दिनांक 10.12.2008 से तथा अगले आदेश होने तक 37,400--67,000/- रुपये + ग्रेड पे-8,700/- रुपये के वेतनमान में इस्पात मंत्रालय में अपर औद्योगिक सलाहकार के पद नियुक्त करते हैं।

जी. वैधोश्वरण, अवर सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी 2009

सं. 18/7/2007-एसओ--राष्ट्रपति, कोयला नियंत्रक का संगठन, कोलकाता में श्री पी. आर. मंडल, सलाहकार (परियोजना), कोयला मंत्रालय को सौंपे गए कोयला नियंत्रक के पद के अतिरिक्त कार्यभार की अवधि को 31.12.2008 से 31.3.2009 तक तीन महीने के लिए अथवा जब तक इस पद पर किसी नियमित पदधारी की नियुक्ति नहीं की जाती है अथवा अगले आदेशों तक, इसमें से जो भी पहले हो, आगे बढ़ाया जाता है।

शरद घोडके, निदेशक

उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 जनवरी 2009

सं. ए-32013/1/1/2008-रा.प्रो.शा.--राष्ट्रपति, श्री एस. के. माथुर, वैज्ञानिक एसबी (विद्युत) को वैज्ञानिक एससी (विद्युत) के पद में पदोन्नति पर दिनांक 28 नवम्बर, 2008 पूर्वाह्न से राष्ट्रीय परीक्षणशाला में 15,600--39,100/- + 6,600/- रुपये के वेतनमान में नियुक्त करते हैं।

केवल कृष्ण, अवर सचिव

दिनांक 12 जनवरी 2009

सं. ए-12025/1/2007-रा.प्रो.शा.--राष्ट्रपति, श्री बिस्वारंजन मंडल को, वैज्ञानिक एसबी (विद्युत) के पद पर नियमित रूप से दिनांक 1 दिसम्बर, 2008 पूर्वाह्न से राष्ट्रीय परीक्षणशाला में 15,600--39,100/- + 5,400/- रुपये के वेतनमान में नियुक्त करते हैं।

केवल कृष्ण, अवर सचिव

सं. ए-32014/2/2006-रा.प्रो.शा.--राष्ट्रपति, श्री अनील चोपड़ा वैज्ञानिक अधिकारी (यांत्रिक) को, वैज्ञानिक एसबी (यांत्रिक) के पद में पदोन्नति पर दिनांक 14 नवम्बर, 2008 अपराह्न से राष्ट्रीय परीक्षणशाला में 15,600--39,100 + 5,400/- रुपये के वेतनमान में नियुक्त करते हैं।

केवल कृष्ण, अवर सचिव

सं. ए-12025/3/2007-रा.प्रो.शा.--राष्ट्रपति, डॉ. सोमित नियोगी को वैज्ञानिक एसबी (फिजीकल-सिविल) के पद में पदोन्नति पर दिनांक 27 नवम्बर, 2008 पूर्वाह्न से राष्ट्रीय परीक्षणशाला में 15,600--39,100 + 5,400/- रुपये के वेतनमान में नियुक्त करते हैं।

केवल कृष्ण, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(जैव प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 5 जनवरी 2009

सं. ए-12011/01/2005-स्था.--राष्ट्रपति, डॉ. पियूष गोयल, कनिष्ठ विश्लेषक (तकनीकी) को इस विभाग के वैज्ञानिक 'बी' के रूप में इस विभाग में जैव सूचना विज्ञान केंद्र (बीटीआईसी) के योजना पद के प्रति वेतन समूह पीबी-3, 15,600--39,100 रु. तथा 5,400/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित 8 जनवरी, 2009 के पूर्वाह्न से एक वर्ष की समयावधि के लिए एक वर्ष के लिए अथवा आगामी आदेशों के आने तक, इनमें से जो भी पहले हो, की प्रतिनियुक्ति अवधि में सहर्ष वृद्धि करते हैं।

बीना ई. चक्रवर्ती, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 दिसम्बर 2008

सं. ए 32011/02/2008-स्था.--राष्ट्रपति, डॉ. (श्रीमती) अनामिका गंभीर, वैज्ञानिक 'सी' को इस विभाग में वैज्ञानिक 'डी' के रूप में पे-बैंड पीबी-3, 15,600--39,100/- रुपये, 7,600/- रुपये के ग्रेड पे सहित 1 जनवरी, 2009 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों के निर्गमित किए जाने तक सुनम्य अनुपूरक योजना के अंतर्गत स्वस्थाने पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एच. एस. नन्दा, अवर सचिव

सं. ए-32011/02/2008-स्था.--राष्ट्रपति, डॉ. ए. के. रावत, वैज्ञानिक 'डी' को इस विभाग में वैज्ञानिक 'ई' के रूप में पे-बैंड पीबी-4, 37,400--67,000/- रुपये, 8,700/- रुपये के ग्रेड पे सहित 1 जनवरी, 2009 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों के निर्गमित किए जाने तक सुनम्य अनुपूरक योजना के अंतर्गत स्वस्थाने पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एच. एस. नन्दा, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 दिसम्बर 2008

सं. ए-12021/2/2006-सी.पी.डब्ल्यू.--राष्ट्रपति, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में अपर सचिव श्री ज. मो. माऊसकर, भा.प्र.से. (ए.एम. : 77), के केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के पद के अतिरिक्त प्रभार के समनुदेशन को 30 नवम्बर, 2008 के बाद और 31 दिसम्बर 2008 तक जारी रखते हैं।

रशीद हसन, निदेशक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 दिसम्बर 2008

सं. ए-12021/1/2007-सी.पी.डब्ल्यू.--राष्ट्रपति, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अपर निदेशक श्री जे. एस. कमयोत्रा को 16,400-450-20,000/- रुपये के वेतनमान में 23 दिसम्बर, 2008 से 3 वर्षों की अवधि तक सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त करते हैं।

जफरुल इस्लाम, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 1 जनवरी 2009

सं. 22012/13/2001-आई.एफ.एस.-II--इस मंत्रालय की दिनांक 23.12.2008 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में, राज्य वन सेवा, हरियाणा के अधिकारी श्री वी. के. झाझरिया की वर्ष 1992-93 की चयनसूची के आधार पर भारतीय वन सेवा में नियुक्ति की तारीख 31 दिसंबर, 1990 है।

यह नियुक्ति 2007 की सिविल रिट याचिका सं. 1026 सी ए टी (भारत संघ बनाम आर. एस. लाम्बा व अन्य) के मामले में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ द्वारा पारित आदेशों के अधीन है।

सी. एम. शर्मा, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(सी. एच. एस. विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी 2009

सं. ए. 12025/1/02-सी. एच. एस.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. देवनाथ महतो को 17.02.2004 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग की बाल चिकित्सा विशिष्टता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीवीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

वी. पी. राणा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 9 जनवरी 2009

सं. ए. 12025/97/2006-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. विशाल कुमार को 20.06.2007 के अपराह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रुपये (संशोधन पूर्व) के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ. विशाल कुमार राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किये जाते हैं। डॉ. विशाल कुमार दो वर्षों की परीवीक्षा पर रहेंगे।

माया प्रकाश, अवर सचिव

सं. ए. 12025/157/2005-सी. एच. एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. मीनाक्षी कमल को दिनांक 07.04.2008 के

पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रुपए (संशोधन पूर्व) के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करती हैं। डॉ. मीनाक्षी कमल को डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है। डॉ. मीनाक्षी कमल दो वर्षों के लिए परीक्षा पर रहेंगी।

माया प्रकाश, अवर सचिव

सं. ए. 12025/166/2005-सी. एच. एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. जयवन्ती हेलन को 20 अप्रैल 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रुपए (संशोधन पूर्व) के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करती हैं। डॉ. जयवन्ती हेलन को श्रम मंत्रालय के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है। डॉ. जयवन्ती हेलन दो वर्षों के लिए परीक्षा पर रहेंगी।

माया प्रकाश, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 1 जनवरी 2009

सं. ए-38013/06/2008-स्थापना-I--केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर तैनात श्री पी. के. गोयल अधिवर्धित प्राप्त कर लेने पर 31 दिसम्बर, 2008 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

अरविन्द कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 2008

सं. ए-38013/1/2008-प्रशासन-I--सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त हो जाने के फलवरूप श्री ओम प्रकाश, अनुभाग अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय दिनांक 30.11.2008 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

आर. के. कालड़ा, उप निदेशक प्रशासन
(आर. के. के.)

दिनांक 2 जनवरी 2009

सं. ए-38012/2/2008-प्रशासन-I--सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त हो जाने के फलवरूप डॉ. राम चन्द्र सेनापति, अतिरिक्त उप महानिदेशक (मुख्यालय) के.स.स्वा.यो.स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय दिनांक 30.11.2008 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

आर. के. कालड़ा, उप निदेशक प्रशासन
(आर. के. के.)

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 दिसम्बर 2008

सं. 20-19/2007-बा-IV--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर श्री खोकन देबनाथ को कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के अधीन काजू एवं कोको विकास निदेशालय, कोचीन, केरल में रु. 10,000-325-15,200/- (पीबी-3 के रु. 15,600--39,100/- में परिवर्तित) वेतनमान पर 12.11.2008 के पूर्वाह्न से अधिकतम 3 वर्षों की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक, अल्पकालीन अनुबंध के आधार पर उपनिदेशक (विकास) के पद पर नियुक्त करते हैं।

डॉ. आर. के. राव, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 28 नवम्बर 2008

सं. 32011/12/2007-स्था.-II--राष्ट्रपति, श्री एस. के. दलाल, नियमित उपायुक्त (फसल) कृषि एवं सहकारिता विभाग को नियमित पदोन्नति आधार पर पूर्व संशोधित वेतनमान 14,300-400-18,300/- रु. में अपर आयुक्त (फसल) के पद पर 18 नवम्बर, 2008 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

पी. विजयकुमार, अवर सचिव

दिनांक 30 दिसम्बर 2008

सं. 38011/6//2008-स्था.-II--सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने पर श्री विजय सिंह, निदेशक (सहकारिता/त्रय) जो कृषि एवं सहकारिता विभाग में वेतन बैंड -3 ग्रेड वेतन 7,600/- रु. में ओ एण्ड एम प्रभाग में कार्यरत हैं, 31 दिसम्बर, 2008 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं।

पी. विजयकुमार, अवर सचिव

सं. 38011/7//2008-स्था.-II--सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने पर श्री धरम पाल, जो कृषि एवं सहकारिता विभाग में वेतन बैंड -3 ग्रेड वेतन 7,600/- रु. में उपायुक्त (आई. एन. एम.) के पद पर कार्यरत हैं, 31 दिसम्बर, 2008 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं।

पी. विजयकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 दिसम्बर 2008

सं. 12023/16//2006-स्था.-II--राष्ट्रपति, यूजीटोसी के डॉ. प्रदीप कुमार साहा, सहायक निदेशक को दिनांक 3 दिसम्बर, 2008 के पूर्वाह्न से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, संशोधित वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रु.) के साथ ग्रेड वेतन 7,600/- रु. में कृषि एवं सहकारिता विभाग में प्रतिनियुक्ति आधार पर उपायुक्त (फसल) के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए. के. अरोड़ा, अवर सचिव

दिनांक 4 दिसम्बर 2008

सं. 19011/555/2008-स्था.-II--राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, क्षेत्र प्रचालन प्रभाग (मुख्यालय) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय में उप महानिदेशक के पद से कार्यमुक्त होने के फलस्वरूप श्रीमती सुधा मिह्रा जो भारतीय सांख्यिकी सेवा के एस ए जी स्तर की अधिकारी हैं, को कृषि एवं सहकारिता विभाग में संशोधित वेतन बैंड-4 (37,400--67,000/- रु.) ग्रेड वेतन 10,000/- रु. में 24.11.08 के पूर्वाह्न से सलाहकार (बागवानी) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

ए. के. अरोड़ा, अवर सचिव

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 7 जनवरी 2009

सं. 2-1/2006-मात्स्यिकी (प्रशासन).--राष्ट्रपति, श्री एस. के. जयसवाल, सेवा इंजीनियर (अभियांत्रिकी) को भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई में नियमित आधार पर 10,000--15,200/- रुपए के वेतनमान में 17.12.2008 (पूर्वाह्न) से अभियांत्रिकी समुद्री इंजीनियर (सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग "क" राजपत्रित) (अननुसचिवीय) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय
(भूमि संसाधन विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

सं. ए. 19035/3/2008-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्रीमती मीना राजपाल को 2 दिसम्बर, 2008 के पूर्वाह्न से भूमि संसाधन विभाग में सहायक निदेशक (रा.भा.) के पद पर नियुक्त करते हैं।

जी. बी. उपाध्याय, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 दिसम्बर 2008

सं. 17015/8/2008-आरआईसी--राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में कार्यरत सचिव (संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी) श्री डी. पी. सिंह को भू-विज्ञान मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्ति के परिणामस्वरूप, उन्हें 5 दिसम्बर, 2008 अपराह्न से इस मंत्रालय के कार्यभार से मुक्त किया जाता है।

नीलाम्बुज शरण, निदेशक

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 दिसम्बर 2008

सं. 2(14)/2004-का.1(खण्ड II)--इस विभाग की दिनांक 23.10.2007 की समसंख्यक अधिसूचना के सिलसिले में श्री चन्द्र मोहन, सहायक इंजीनियर (वैद्युत) की सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 4,600/- रुपए

ग्रेड पे सहित 9,300--34,800/- रुपए (पीबी-2) के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति की अवधि विद्यमान शर्तों एवं निबंधनों पर दिनांक 15.10.2008 से अथवा आगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, एक वर्ष की अवधि (दूसरा वर्ष) के लिए और आगे बढ़ा दी गई है।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
(पोत परिवहन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 जनवरी 2009

सं. ए-12025/5/2003-स्था.--राष्ट्रपति, श्री डी. जे. बासू, सहायक उप सचिव (यांत्रिक) की उप सचिव (यांत्रिक) (साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय) तदर्थ आधार पर नियुक्ति को 10,000-325-15,200/- रु. (पूर्व-पुनरीक्षित) अब पुनरीक्षित पीबी-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 6,600/- के वेतनमान में दिनांक 16.12.2008 (पूर्वाह्न) से छः मास, जब तक नियमित पदधारी पद ग्रहण नहीं करता अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सहर्ष बढ़ाते हैं।

2. यह नियुक्ति इन शर्तों पर की जाती है कि तदर्थ प्रोन्नति बिना सीमा के इस ग्रेड में जारी रहने का अधिकार नहीं देती।

ए. एम. विजयन, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 2008

सं. 30/2008 (फा. सं. 5/10/2008-प्रशा. दो)--राष्ट्रपति, सुश्री सरिता रानी, श्री केशव पटईट, सुश्री हरजोत कौर तथा श्री मोहर सिंह, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विद्युत मंत्रालय संवर्ग के नियमित श्रेणी 'ग' आशुलिपिकों को, वर्ष 2005 की चयनित सूची के वरिष्ठता कोटे में, विद्युत मंत्रालय संवर्ग में सी.सी.एस. (संशोधित वेतन), नियम, 2008 के तहत, पे-बैंड-2/पे-बैंड-3 में, 24 दिसंबर, 2008 के पूर्वाह्न से नियमित आशुलिपिक श्रेणी 'क' तथा 'ख' (सम्मिलित) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एन. श्रीरामन, अवर सचिव

दिनांक 31 दिसम्बर 2008

सं. 31/2008 (फा. सं. 12/6/2008-प्रशासन-II)--अधिवाषिता की आयु प्राप्त होने पर श्री अनिल राजदान, (आई. ए.एस.) (हरियाणा-1973), सचिव, विद्युत मंत्रालय 31 दिसंबर, 2008 को अपराह्न में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एन. श्रीरामन, अवर सचिव

दिनांक 2 जनवरी 2009

सं. 01/09 (फा. सं. 2/10/2008-प्रशा.-दो)--राष्ट्रपति, श्री वी. एस. संपथ, भा.प्र.से. (ऑ. प्र. : 1973), को 02 जनवरी, 2009 के पूर्वाह्न से, अगले आदेशों तक, सचिव, विद्युत मंत्रालय के रूप में नियुक्त करते हैं।

एन. श्रीरामन, अवर सचिव

दिनांक 6 जनवरी 2009

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 जनवरी 2009

सं. 01/2009 (फा. सं. ए-32013/2/2008-प्रशासन-1)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) के निम्नलिखित अधिकारियों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में उसी सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (निदेशक/अधीक्षण इंजीनियर) में रु. 14,300-400-18,300/- के संशोधन-पूर्व वेतनमान में, उनके नाम के सामने दशाई गई तारीख से अगले आदेश जारी होने तक के लिये नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
(सर्वश्री)		
1.	प्रहलाद	27 अगस्त 2008 (पूर्वाह्न)
2.	राम प्रकाश	27 अगस्त 2008 (पूर्वाह्न)
3.	सुनील कुमार	27 अगस्त 2008 (पूर्वाह्न)
4.	बुद्धादेव सरखेल	16 दिसम्बर 2008 (अपराह्न)
5.	सी. एस. कसाना	27 अगस्त 2008 (पूर्वाह्न)
6.	ए. आर. कृष्णामूर्ति	27 अगस्त 2008 (पूर्वाह्न)
7.	ए. के. मित्तल	27 अगस्त 2008 (पूर्वाह्न)
8.	आई. के. निज़ावन	27 अगस्त 2008 (पूर्वाह्न)
9.	दीपक कुमार मलिक	27 अगस्त 2008 (पूर्वाह्न)
10.	महिपाल सिंह-II	27 अगस्त 2008 (पूर्वाह्न)
11.	नवाब सिंह	27 अगस्त 2008 (पूर्वाह्न)
12.	धर्म सिंह	27 अगस्त 2008 (पूर्वाह्न)
13.	इन्द्रजीत शर्मा	27 अगस्त 2008 (पूर्वाह्न)
14.	एल. डी. पापने	01 सितम्बर 2008 (पूर्वाह्न)
15.	संजय शर्मा	01 सितम्बर 2008 (पूर्वाह्न)
16.	संजीव मंडिलवार	02 सितम्बर 2008 (पूर्वाह्न)
17.	जयदीप सिंह बावा	30 सितम्बर 2008 (पूर्वाह्न)
18.	एस. के. रायमोहपत्रा	31 अक्टूबर 2008 (पूर्वाह्न)
19.	नरेश भंडारी	07 नवम्बर 2008 (पूर्वाह्न)

एन. श्रीरामन, अवर सचिव

सं. 1/2009 (फा. सं. 25/2(2)/2006-स्थापना-एक)--केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (समूह क) सेवा से त्यागपत्र स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप श्री रोहित श्रीवास्तवा सहायक निदेशक/सहायक कार्यपालक इंजीनियर, केन्द्रीय जल आयोग को 17.12.2008 पूर्वाह्न से कार्यमुक्त किया जाता है।

के. राजप्पा, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी 2009

सं. के-11011/1/2008-डीडी 1ए--केन्द्र सरकार एतद्वारा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की सं. 61) की धारा 3 की उप धारा (3) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अशोक कुमार, आईएएस (एजीएमयू : 74) को दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 से अगले आदेशों तक, पदोन्नत कर स्वस्थाने भारत सरकार के सचिव के पद और वेतनमान में दिल्ली विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त करती है।

एन. टी. जोसेफ, अवर सचिव (डीडी 1ए)

श्रम और रोज़गार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 जनवरी 2009

सं. ए-11019/01/09-प्रशा.1--राष्ट्रपति जी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 दिसम्बर, 2008 के आदेश सं. 4/1/2007-सी.एस.1 के अनुसरण में तथा वर्ष 2003 के लिए सी.एस.एस. संवर्ग के सलेक्शन ग्रेड (उप सचिव) की चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सी एस एस) के निम्नलिखित ग्रेड-I अधिकारियों को सलेक्शन ग्रेड (उप सचिव) संवर्ग में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम और पदनाम	सीएसएस संख्या
1.	सुश्री वन्दना शर्मा, उप सचिव	2954
2.	श्री राजा लाल, उप सचिव	3507
3.	श्री आर. एस. तपरियाल, उप सचिव	3799

प्रदीप गौड़, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 7th January 2009

No. RS/43(ix)/2005/1-Perl.—In continuation of this Secretariat's Notification No. RS/43(ix)/2005/1-Perl. dated the 16th January, 2006, the Chairman, Rajya Sabha has been pleased to extend the term of deputation of Shri Sanjay Singh, IPS (AGMU: 1990) as Director (Security) in this Secretariat for a period of one year w.e.f. 16th January, 2009.

C. B. RAI, Dir.

No. RS/3/1/2008/2(2009)-Perl.—Shri Anil Kumar Saini, who was earlier appointed to officiate as Legislative/Committee/Protocol/Executive Officer on ad-hoc basis vide Notification No. RS/3/1/2008/19-Perl. dated 21st April, 2008, has now been appointed on regular basis in that grade with effect from the forenoon of 1st January, 2009, until further orders.

2. The above appointment would be subject to the orders of the Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

C. B. RAI, Dir.

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 5th January 2009

No. A-19011/01/2009-Ad-I—The President is pleased to appoint Shri Ajit Kumar Seth, IAS (UP:74) as Secretary (Coordination and Public Grievances) in the Cabinet Secretariat with effect from forenoon of 1st January, 2009.

R. KRISHNAMURTHY, Under Secy.

SECRETARIAT OF THE
ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110 001, the 5th January 2009

No. A-20/G-B/147—Shri Sandeep Jain, a regular Section Officer in the Ministry of Corporate Affairs whose services were placed at the disposal of the Election Commission and was appointed as Officer on Special Duty (Legal) on deputation basis w.e.f. 30.11.2006 for a period of one year i.e. upto 29.11.2007 and extended subsequently upto 29.11.2008 is hereby relieved from the Election Commission w.e.f. the forenoon of 05.01.2009, with direction to report for duty to the Ministry of Corporate Affairs.

SITA RAM, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 27th November 2008

No. A.12025/3/08-VSP(A)—The President is pleased to appoint Smt. Saraswati Vishwanathan, Superintendent (Printing), Ministry of Law and Justice, Legislative Department, to officiate as Publication-cum-Sales Manager

on ad-hoc basis in the Pay Band-3, Grade Pay Rs. 6600/- with the pay scale of Rs. 15,600--39,100 for a period of three months w.e.f. the forenoon of the 17th November, 2008 or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

2. The above appointment of Smt. Saraswati Vishwanathan will neither bestow on her any claim for her seniority in the grade of Publication-cum-Sales Manager nor the service rendered by her as such counted for her appointment in the post of Publication-cum-Sales Manager on regular basis.

R. C. GABA, Dy. Secy.

New Delhi, the 30th December 2008

No. A.37012/3/2008-VSP(A)—The President is pleased to appoint Shri A. K. Varshney, Editor in the Vidhi Sahitya Prakashan of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to the post of Chief Editor in the Pay Band of Rs. 37,400--67,000 plus Grade Pay of Rs. 8,700 in the said Prakashan of the Legislative Department of Ministry of Law and Justice on ad hoc basis for a period of three months with effect from the forenoon of 30th December, 2008 and until further orders.

2. This ad-hoc appointment will not bestow on Shri A. K. Varshney any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Chief Editor nor the ad-hoc services rendered by him will count for the purpose of seniority in the grade or for his promotion to the next higher grade.

M. R. BEERH, Dy. Secy.

No. A.37012/3/2008-VSP(A)—The President is pleased to appoint Shri Jugal Kishore, Assistant Editor in the Vidhi Sahitya Prakashan of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to the post of Editor in the Pay Band of Rs. 15,600--39,100 plus Grade Pay of Rs. 7,600 in the said Prakashan of the Legislative Department of Ministry of Law and Justice on ad hoc basis for a period of three months with effect from the forenoon of 30th December, 2008 and until further orders.

2. This ad-hoc appointment will not bestow on Shri Jugal Kishore any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Editor nor the ad-hoc services rendered by him will count for the purpose of seniority in the grade or for his promotion to the next higher grade.

M. R. BEERH, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 7th January 2009

No. A-32012/2/2008-Admn.-I (LA)—The Competent Authority in this department is pleased to appoint Shri S. K. Dey, Assistant (Legal) in the Branch Secretariat of this Department at Kolkata, as Superintendent (Legal)

(General Central Service, Group B, Gazetted post) in the said Branch Secretariat, Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice, in the Pay Band PB-2 with pay scale of Rs. 9,300—34,800 and grade pay of Rs. 4,800/- with effect from the forenoon of 23rd December, 2008, until further orders.

V. RAVINDRAN, Under Secy.

DEPARTMENT OF JUSTICE

New Delhi-110 011, the 26th December 2008

No. K. 13017/2/2008-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Arun Chandra Upadhyay and (ii) Shri Chitta Ranjan Sarma, to be Additional Judges of the Gauhati High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

S. TWICKLY, Dy. Secy.

No. K. 13022/1/2008-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Surendra Mohan Kuriakose, (ii) Shri Parappillil Ramakrishnan Nair Ramachandra Menon, (iii) Shri Chandra Villa Koyanalipilla Abdul Rehim, and (iv) Shri Chudalayil Thevan Ravikumar, Advocates, as Additional Judges of the Kerala High Court, in that order of seniority, for a period of two years, with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

S. TWICKLY, Dy. Secy.

No. K. 13020/3/2008-US.II—In exercise of the powers conferred by section 95 of the Constitution of Jammu & Kashmir, the President is pleased to appoint Shri Justice Barin Ghosh, Judge, Patna High Court, to be the Chief Justice of the Jammu and Kashmir High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

S. TWICKLY, Dy. Secy.

The 29th December 2008

No. K. 13014/4/2004-US.I—Shri Justice Ashutosh Arvind Kumbhakoni, resigned from the office of the Judge, Bombay High Court, in pursuance of proviso (a) of clause (1) of article 217 of the Constitution of India, with effect from the afternoon of 7th November, 2008.

S. TWICKLY, Dy. Secy.

No. K. 13021/3/2004-US.I—Shri Justice Ravindra B. Naik, resigned from the office of the Judge, Karnataka High Court, in pursuance of proviso (a) of clause (1) of article 217 of the Constitution of India, with effect from the afternoon of 8th September, 2008.

S. TWICKLY, Dy. Secy.

The 30th December 2008

No. K. 13014/5/2008-US.I—Shri Justice Santosh Champalal Bora, resigned from the office of the Judge, Bombay High Court, in pursuance of proviso (a) of clause (1) of article 217 of the Constitution of India, with effect from the afternoon of 18th November, 2008.

S. TWICKLY, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 7th January 2009

No. 20/G/3020-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri Lokesh Dutt Jha, IAS (JK:86) as Joint Secretary in the Ministry of Home Affairs, in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) and Grade pay of Rs. 10,000/- with effect from 1st January, 2009 (forenoon) for a period of 5 years or until further orders, whichever event takes place earlier.

J. B. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, P. G. & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 31st December 2008

No. 14013/04/2008-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Karnataka, with effect from the dates shown against them :—

Sl. No.	Name of the officer	Batch	Date of confirmation
1.	Shri C. M. Shirol	1994	31.03.2007
2.	Shri S. Dayashankar	1997	31.03.2007
3.	Shri N. Sriraman	1997	31.03.2007
4.	Shri K. Viswanath Reddy	1997	31.03.2007
5.	Shri N. S. Channappa Gowda	1999	31.03.2007
6.	Shri K. Ramanna Naik	1999	31.03.2007
7.	Dr. V. Chandrashekar	1999	31.03.2007
8.	Shri Anwar Pasha	1999	31.03.2007

HARJOT KAUR, Dir. (Services)

New Delhi, the 31st December 2008

No. 14015/13/2008-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint Sh. Ashok Deswal, a member of the State Civil

Service of Madhya Pradesh to the Indian Administrative Service against the vacancy for the year 2007 on probation with immediate effect until further orders and to allocate him to the Madhya Pradesh Cadre, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

2. The appointment of above officer is subject to the final decision in O.A. No. 375/2008 filed by Madhya Pradesh Indian Administrative Service Officers Association before the Hon'ble CAT, Jabalpur Bench.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

The 7th January 2009

No. 14015/14/2008-AIS(I)-A—In terms of the provisions contained in sub-regulation (1) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997, the Union Public Service Commission has approved the Select List of 2008 on 17.12.2008 containing the name(s) of the following member(s) of the Non-State Civil Service of the State of Maharashtra prepared by the Selection Committee in its meeting held on 10.10.2008 towards filling up 1 (one) existing vacancies in the Maharashtra cadre of the Indian Administrative Service, during 2008 :—

Select List 2008

Name of the Officer	Date of Birth
Shri C. V. Oak	15.09.1957

S. S. SHUKLA, Under Secretary

No. 14015/14/2008-AIS(I)-B—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following member(s) of the Non-State Civil Service of Maharashtra to the Indian Administrative Service against the vacancies for the year 2008 on probation with immediate effect until further orders and to allocate him to the Maharashtra Cadre, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Name of the Officer
Shri C. V. Oak

S. S. SHUKLA, Under Secy.

New Delhi, the 6th January 2009

No. 20/G/956-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri Budh Prakash, as Joint Secretary in the Pay Band-4

(PB-4) Rs. 37,400-67,000+10,000 (Grade Pay) in the Department of Personnel & Training with effect from the forenoon of 30th October, 2008 until further orders, by in-situ upgradation of the post of Director presently held by him.

HARISH CHANDER, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 16th December 2008

No. 19/PB-I/2008—The President is pleased to appoint the undermentioned officers belonging to Grade IV of the General Cadre of IFS (B) and Grade II of Cypher Cadre of IFS (B) to officiate in Integrated Grades II & III of General Cadre of IFS (B) with effect from the date shown against their names in terms of Ministry's O.M. No. Q/CAD/584/04/2008 dated 3rd June, 2008 :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth	Date of Promotion
	Sh./Smt.		
1.	F. Rajasekhar	30.09.1959	01.12.2008
2.	Shashikant Meshram	22.01.1966	01.12.2008
3.	Rajbir	06.01.1957	01.12.2008

2. The above mentioned officers have assumed charge of the post of Section Officer with effect from the dates indicated against their names.

BHASKAR BHATT, Admin. Officer (PB-I&III)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES)

New Delhi, the 23rd December 2008

No. A-19015/8/2008-DRT—The Central Government is pleased to appoint Shri K. Sambhu Prasad, Senior Manager, Bank of Baroda to the post of Assistant Registrar in the Debts Recovery Tribunal Pune on deputation basis, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- for a period of three years w.e.f. 24.11.2008 (F/N) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Dy. Secy.

No. A-19015/9/2008-DRT—The Central Government is pleased to appoint Shri M. P. Parmar, Section Officer, Debts Recovery Tribunal, Jabalpur to the post of Assistant Registrar in the Debts Recovery Tribunal-II, Ahmedabad on deputation basis, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- for the period from 15.10.2008 (A/N) to 11.09.2010 or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF DISINVESTMENT

New Delhi-110003, the 5th January 2009

CORRIGANDUM

No. 9/6/2006-Admn.—In partial modification of the Notification of even number dated 31st October, 2008 (copy enclosed), it is mentioned that Shri P. J. Thomas, Principal Private Secretary, Central Secretariat Stenographers Service in the Ministry of Finance, Department of Disinvestment had actually retired voluntarily from the services of Government of India in the forenoon of 31st October, 2008. Accordingly, Line number 4 of the said Notification may kindly be read as forenoon of "31st October, 2008" in place of "afternoon of 31st October, 2008" under Clauses (j) to (m) of Rule 56 of the Fundamental Rules or Rule 48 or Rule 48-A, as the case may be and the date of retirement shall be treated as non-working day.

NARENDRA SINGH, Under Secy.

New Delhi-110003, the 31st October 2008

No. 9/6/2006-Admn.—Shri P.J. Thomas, Principal Private Secretary, Central Secretariat Stenographer Service in the Ministry of Finance, Department of Disinvestment, has retired voluntary from the services of the Government in the afternoon of 31st October, 2008.

V. P. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 31st December 2008

No. 6/1608/86/HRD-1/108/17/2008—On attaining the age of superannuation Shri K. B. Roy, Jt. DGFT (ITS) in this Office will retire from Government service with effect from 31.12.2008 (AN).

R. S. BISHT, Dy. Dir. Gen. of Foreign Trade

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY & PROMOTION

New Delhi, the 24th November 2008

No. A.45011/02/2005/E.I.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Section Officers' Grade (Seniority Quota) for the year 2003, vide Department of Personnel & Training's OM No. 5/25/2004-CS.I(S) dated 12.8.2008 the President is pleased to appoint Shri Arnaib Aich (Select List year 1990, SCSL No. 173) a regular Assistant of the CSS cadre of the Ministry of Finance, Department of Revenue, working as ad-hoc Section Officer in the Department of Industrial Policy and Promotion and presently working on deputation in Department of Revenue as Junior Analyst (Anti-smuggling) (Scale of Pay Rs. 6500-200-10500/-) as Section Officer on regular basis in the Central Secretariat Service cadre of the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, on pro-

forma basis under the "Next below Rule" under F.R. 22 with effect from the forenoon of 12.8.2008.

The above appointment to the Grade of Section Officer of CSS shall be subject to the outcome of Writ Petition (c) No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander vs UOI before the High Court, Delhi and OA No. 1084/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Sinha vs UOI before the Central Administrative Tribunal, New Delhi. Financial benefits like the Non Functional scale etc. to be granted to the above officers shall be subject to the outcome of the above mentioned two Court Cases.

P. BHARDWAJ, Under Secy.

The 28th November 2008

No. A-19012/862/91-E.I.—On attaining the age of superannuation, Shri J. K. Saxena, a regular Section Officer of the CSS Cadre of the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry and Officiating as Under Secretary (Grade I of CSS) on ad-hoc basis, shall stand retired from Government service, with effect from the afternoon of 30th November, 2008.

P. BHARDWAJ, Under Secy.

The 31st December 2008

No. A-19012/977/1995-E.I.—On attaining the age of superannuation, R.C. Anand, Private Secretary (Select List 1994) in the CSS cadre of Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, shall stand retired from Government service, with effect from the afternoon of 31st December 2008.

P. BHARDWAJ, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 12th December 2008

No. 2(7)/2007-Estt(.)—On the recommendation of the UPSC, the President is pleased to appoint Shri Deependra Kashiva, Joint Industrial Adviser presently officiating as Additional Industrial Adviser on ad-hoc basis in the Ministry of Steel, as Additional Industrial Adviser, Ministry of Steel in the pay scale of (Rs. 37400—67000/-+Grade Pay—8700/-) on promotion and regular basis w.e.f. 10.12.2008 and until further orders.

G VAIDHEESWARAN, Under Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 5th January 2009

No. 18/7/2007-ASO—The President is pleased to extend the period of additional charge of the post of Coal Controller in the Coal Controller's Organisation, Kolkata assigned to Shri P.R. Mandal, Adviser (Projects), Ministry of Coal for a further period of three months beyond 31.12.2008 and upto 31.03.2009 or till a regular incumbent to the post is made or until further orders, whichever is the earliest.

SHARAD GHODKE, Dir.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND
PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi-110011, the 6th January 2009

No. A-32013/1/2008-NTH(Estt).—The President is pleased to appoint Shri S.K. Mathur, Scientist SB (Electrical) on in-situ promotion to the post of Scientist-SC (Electrical) in the National Test House in Pay scale of Rs. 15600—39100/-+Rs. 6600/- w.e.f. the forenoon of 28th November, 2008.

KEWAL KRISHAN, Under Secy.

The 12th January 2009

No. A-12025/1/2007-NTH(Estt).—The President is pleased to appoint Shri Biswaranjan Mandal to the post of Scientist-SB (Electrical) in the National Test House on regular basis in Pay scale of Rs. 15600-39100/-+Rs. 5400/- w.e.f. the forenoon of 1st December, 2008.

KEWAL KRISHAN, Under Secy.

No. A-32014/2/2006-NTH(Estt).—The President is pleased to appoint Shri Anil Chopra, Scientific Officer (Mechanical) on promotion to the post of Scientist-SB (Mechanical) in the National Test House in Pay scale of Rs. 15600—39100/-+Rs. 5400/- w.e.f. the afternoon of 14th November, 2008.

KEWAL KRISHAN, Under Secy.

No. A-12025/3/2007-NTH(Estt).—The President is pleased to appoint Dr. Somit Neogi to the post of Scientist-SB (Physical-Civil) in the National Test House on regular basis in Pay scale of Rs. 15600—39100/-+Rs. 5400/- w.e.f. the Forenoon of 27th November, 2008.

KEWAL KRISHAN, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 5th January 2009

No. A-12011/01/2005-Estt.—The President is pleased to extend the deputation period of Dr. Peyush Goyal, Junior Analyst (Technical) in this Department as Scientist 'B' against the plan post of Bioinformatics Centre (BTIC) in this Department in the Pay Band PB-3 Rs. 15600—39100/- plus Grade Pay of Rs. 5400/- for a period of one year with effect from the forenoon of 8th January, 2009 or until further orders, whichever is earlier.

BEENA E. CHAKRAVARTY, Under Secy.

New Delhi-110003, the 29th December 2008

No. A-32011/02/2008-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Anamika Gambhir, Scientist 'C' in this

Department as Scientist 'D' in the Pay Band PB-3 Rs. 15600—39100/- + Grade Pay of Rs. 7600/- on in-situ promotion under Flexible Complementing Scheme with effect from the forenoon of 1st January, 2009 and until further orders.

H. S. NANDA, Under Secy.

No. A-32011/02/2008-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. A.K. Rawat, Scientist 'D' in this Department as Scientist 'E' in the Pay Band PB-4 Rs. 37400—67000/- + Grade Pay of Rs. 8700/- on in-situ promotion under Flexible Complementing Scheme with effect from the forenoon of 1st January, 2009 and until further orders.

H. S. NANDA, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 22nd December 2008

No. A-12021/2/2006-CPW.—The President is pleased to continue assignment of additional charge of the post of Chairman, Central Pollution Control Board to Shri J.M. Mauskar, IAS (AM:77), Additional Secretary in the Ministry of Environment & Forests beyond 30th November, 2008 and upto 31st December, 2008.

RASHID HASAN, Dir.

New Delhi-110003, the 23rd December 2008

No. A-12021/1/2007-CPW(.)—The President is pleased to appoint Shri J.S. Kamyotra, Additional Director, Central Pollution Control Board to the post of Member Secretary, Central Pollution Control Board in the scale of Rs. 16,400-450-20,000/- for a period of 3 years w.e.f. 23rd December, 2008 on deputation basis.

ZAFRUL ISLAM, Under Secy.

New Delhi-110003, the 1st January 2009

No. 22012/13/2001-IFS-II.—In continuation of this Ministry's Notification of even number dated 23.12.2008, the date of appointment of Shri V.K. Jhajharia, Officer of State Forest Service of Haryana to the Indian Forest Service on the basis of Select List for the year 1992-93 is 31st December, 1990.

2. This is subject to order(s) passed by the Hon'ble Punjab & Haryana High Court at Chandigarh in Civil Writ Petition No. 1026-CAT of 2007 (UOI Vs R.S. Lamba & Ors).

C. M. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi-110018, the 5th January 2009

No. A-12025/1/02-CHS.III.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Deonath Mahto to the post of

Assistant Professor in the speciality of Paediatrics in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 17.02.2004 and until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

New Delhi-110018, the 9th January 2009

No. A. 12025/97/2006-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Vishal Kumar to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- in a temporary capacity with effect from afternoon of 20.06.2007 until further orders. Dr. Vishal Kumar is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi. Dr. Vishal Kumar shall be on probation for two years.

MAYA PRAKASH, Under Secy.

No. A. 12025/157/2005-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Meenakshi Kamal to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- (pre-revised) in a temporary capacity with effect from forenoon of the 07.04.2008 until further orders. Dr. Meenakshi Kamal is posted as Medical Officer under Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi. Dr. Meenakshi Kamal shall be on probation for two years.

MAYA PRAKASH, Under Secy.

No. A. 12025/166/2005-CHS.I.—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Jaiwanti Helen Horo to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 (pre-revised) in a temporary capacity with effect from forenoon of the 20th April, 2007 until further orders. Dr. Jaiwanti Helen Horo is posted as Medical Officer under Ministry of Labour. Dr. Jaiwanti Helen Horo shall be on probation for two years.

MAYA PRAKASH, Under Secy.

DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 1st January 2009

No. A. 38013/06/2008-Estt.I.—On attaining the age of superannuation, Shri P.K. Goel, an officer of the CSS and posted as Section Officer in the Ministry of Health & Family Welfare, has retired from Government service with effect from the afternoon of 31st December, 2008.

ARVIND KUMAR, Under Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 11th December 2008

No. A-38013/1/2008-Admn.-I.—On attaining the age of superannuation Shri Om Parkash, Section Officer in the

Directorate General of Health Services retired from Government service with effect from 30.11.2008 (Afternoon).

R. K. KALRA, Dy. Dir. Admn.

The 2nd January 2009

No. A-38012/2/2008-Admn.-I—Dr. Rama Chandra Senapati, Addl. DDG (HQ) CGHS of the Directorate General of Health Services retired from Government Service on attaining the age of superannuation on 30.11.2008 (A.N.).

R. K. KALRA, Dy. Dir. Admn.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 1st January 2009

No. 20-19/2007-Hort-IV.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Khokan Debnath, as Deputy Director (Development) in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 (revised to Pay Band-3 of Rs. 15600—39100/- with grade pay of Rs. 6600/-) in the Directorate of Cashewnut & Cocoa Development, Cochin under the Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture on short term contract basis for a period of three years with effect from the forenoon of 12th November, 2008, until further orders.

D. R. K. RAO, Under Secy.

The 28th November 2008

No. 32011/12/2007-E.II.—The President is pleased to appoint Shri S. K. Dalal, regular Deputy Commissioner (Crops) in the Department of Agriculture & Cooperation as Additional Commissioner (Crops) in the pre revised pay scale of Rs. 14300-400-18300/- on regular promotion basis with effect from the forenoon of 18th November 2008.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

The 30th December 2008

No. 38011/6/2008-E.II.—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Shri Vijay Singh, Director (Coopn./Credit) working in O&M Division in the Pay Band-3, Grade pay of Rs. 7600/- in the Department of Agriculture and Cooperation, stands retired from Government Service w.e.f. the afternoon of 31st December, 2008.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

No. 38011/7/2008-E.II.—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Shri Dharam Pal Deputy Commissioner (INM) in the Pay Band-3, Grade Pay of Rs. 7600/- in the Department of Agriculture and Cooperation, stands retired from Government Service w.e.f. the afternoon of 31st December, 2008.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 3rd December 2008

No. 12023/16/2006-Estt.II.—The President is pleased to appoint Dr. Pradip Kumar Saha, Assistant Director, UGTC, as Deputy Commissioner (Crops) in the Department of Agriculture & Cooperation in the revised pay band-3 (Rs. 15600-39100/-) with Grade Pay of Rs. 7600/- on deputation basis with effect from the forenoon of 3rd December, 2008 for a period of four years or till further orders, whichever is earlier.

A. K. ARORA, Under Secy.

The 4th December 2008

No. 19011/555/2008-E.II.—Consequent upon relieving from the post of Deputy Director General, National Sample Survey Organisation, Field Operation Division (HQ), Ministry of Statistics & Programme Implementation, Faridabad, Smt. Sudha Midha, SAG level officer of Indian Statistical Service is appointed as Adviser (Horticulture) in the revised Pay Band-4 (Rs. 37400-67000/-) with Grade Pay Rs. 10000/- in the Department of Agriculture & Cooperation w.e.f. the forenoon of 24.11.2008.

A. K. ARORA, Under Secy.

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

New Delhi, the 7th January 2009

No. 2-1/2006-Fy.Admn.—The President is pleased to appoint Shri S.K. Jaiswal, Service Engineer (Mechanical) to the post of Mechanical Marine Engineer (General Central Service Group 'A' Gazetted), (Non-Ministerial) on regular basis in Fishery Survey of India, Mumbai in the scale of pay of Rs. 10000-15200/- with effect from 17.12.2008 (F.N.).

SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF LAND RESOURCES)

New Delhi-110011, the 31st December 2008

No. A. 19035/3/2008-Admn.—The President is pleased to appoint Smt. Meena Rajpal as Assistant Director (OL) in the Department of Land Resources from the forenoon of 2nd December, 2008.

G. B. UPADHYAY, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

New Delhi-110001, the 5th December 2008

No. 17015/8/2008-RIC.—Consequent upon his appointment as Joint Secretary in the Ministry of Earth Sciences, Sh. D.P. Singh, Secretary (Jt. Secretary level) in National Commission for Safai Karamcharis, stands relieved from this Ministry with effect from the afternoon of 5th December 2008.

NILAMBUJ SHARAN, Dir.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 29th December 2008

No. 2(14)/2004-P.I(V.II).—In continuation of this Department's Notification of even number dated 23.10.2007, the period of deputation of Shri Chander Mohan, Assistant Engineer (Electrical) on deputation in the scale of pay of Rs. 9300-34,800/- (PB-2) plus Grade Pay of Rs. 4600/- in the Department of Information Technology is extended for a further period of one year (2nd year) with effect from 15.10.2008 or until further orders, whichever is earlier on the existing terms & conditions.

GIRISH SAHAI, Dy. Dir.

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF SHIPPING)

New Delhi-110001, the 6th January 2009

No. A-12025/05/2003-Estt.—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri D. J. Basu, Deputy Director (Engineering) (General Central Service 'A' Gazetted, Non-Ministerial) in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- (pre-revised) now revised as PB-3 Rs. 15600-39100+Grade Pay Rs. 6600/- from 16.12.2008 (FN) for a period of six months (i.e. upto 15.06.2009) or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

A. M. VIJAYAN, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 26th December 2008

No. 30/2008 (F. No. 5/10/2008).—The President is pleased to appoint Ms. Sarita Rani, Shri Keshav Patait, Ms. Harjeet Kaur, Shri Mohar Singh, regular Stenographers Gr. C of the Ministry of Power Cadre of CSSS as regular Stenographers Grade A&B (merged) within the Cadre in the Pay Band-2/ Pay Band-3 of CCS (Revised Pay), Rules, 2008 against seniority quota of Select List Year 2005 with effect from the forenoon of the 24th December, 2008.

N. SRIRAMAN, Under Secy.

The 31st December 2008

No. 31/2008 (F. No. 12/6/2008-Adm.II).—On his retirement from the Government service on attaining the age of superannuation, Shri Anil Razdan, IAS (HY:1973), Secretary, Ministry of Power ceases to be in Government Service with effect from the afternoon of the 31st December, 2008.

N. SRIRAMAN, Under Secy.

The 2nd January 2009

No. 01/09 (F. No. 2/10/2008-Adm.II).—The President is pleased to appoint Shri V. S. Sampath, IAS (AP:1973), as Secretary, Ministry of Power with effect from the forenoon of the 2nd January, 2009, until further orders.

N. SRIRAMAN, Under Secy.

The 6th January 2009

No. 01/2009 (F. No. A-32013/2/2008-Adm.I).—The President is pleased to appoint the following officers of the Central Power Engineering (Group A) Service, to the Junior Administrative Grade of the Central Power Engineering (Group A) Service (Director/Superintending Engineer) in the pre-revised scale of pay of Rs. 14300-400-18300/- in the Central Electricity Authority, in an officiating capacity, with effect from the dates mentioned against their names, until further orders:—

S. No.	Name of the Officer	Date of appointment
1	2	3
	(S/Shri)	
1.	Prahlad	27.08.2008 (FN)
2.	Ram Prakash	27.08.2008 (FN)
3.	Sunil Kumar	27.08.2008 (FN)
4.	Buddhadeb Sarkhel	16.12.2008 (AN)
5.	C.S. Kasana	27.08.2008 (FN)
6.	A.R. Krishna Moorthy	27.08.2008 (FN)
7.	A. K. Mittal	27.08.2008 (FN)
8.	I. K. Nijhawan	27.08.2008 (FN)
9.	Deepak Kumar Malik	27.08.2008 (FN)
10.	Mahipal Singh-II	27.08.2008 (FN)
11.	Nawab Singh	27.08.2008 (FN)
12.	Dharam Singh	27.08.2008 (FN)
13.	Inderjit Sharma	27.08.2008 (FN)
14.	L. D. Papney	01.09.2008 (FN)
15.	Sanjay Sharma	01.09.2008 (FN)
16.	Sanjiva Mandilwar	02.09.2008 (FN)
17.	Jaideep Singh Bawa	30.09.2008 (FN)

1	2	3
	(S/Shri)	
18.	S.K. Roy Mohapatra	31.10.2008 (FN)
19.	Naresh Bhandari	07.11.2008 (FN)

N. SRIRAMAN, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 6th January 2009

No. 1/2009 (F.No. 25/2(2)/2006-E.I).—Consequent upon acceptance of resignation from Central Water Engineering (Group-A) Service, Shri Rohit Srivastava, Assistant Director/Assistant Executive Engineer, Central Water Commission is relieved of his duties with effect from 17.12.2008 (FN).

K. RAJAPPA, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 5th January 2009

No. K-11011/1/2008-DDIA.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (3) of Section 3 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957), the Central Government hereby appoints Shri Ashok Kumar, IAS (AGMUT:74) as Vice-Chairman of the Delhi Development Authority in the rank and pay of Secretary to the Govt. of India by in-situ elevation, with effect from 17th October, 2008 until further orders.

N. T. JOSEPH, Under Secy. (DD1A)

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 6th January 2009

No. A-11019/01/09-Adm.I.—In pursuance of Department of Personnel & Training Order No. 4/1/2007-CS-I dated 26th December, 2008 and consequent upon their inclusion in the Select List of Selection Grade (Deputy Secretary) of the CSS Cadre for the year 2003, the President is pleased to appoint the following Grade-I officers of the Central Secretariat Service (CSS) as Selection Grade (Deputy Secretary) on regular basis in the Cadre:—

S.No.	Name & Designation	CSL No.
1.	Ms. Vandana Sharma, Deputy Secretary	2954
2.	Sh. Raja Lal, Deputy Secretary	3507
3.	Sh. R. L. Tapryal, Deputy Secretary	3799

PRADEEP GAUR, Under Secy.